



Singhal

28 Aug 2002

08:15 AM

Agra

Model: Web-MyKundli

Order No: 121271901

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 28/08/2002
दिन _____: बुधवार
जन्म समय _____: 08:15:00 घंटे
इष्ट _____: 05:49:24 घटी
स्थान _____: Agra
राज्य _____: Uttar Pradesh
देश _____: India

अक्षांश _____: 27:09:00 उत्तर
रेखांश _____: 78:00:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:18:00 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 07:57:00 घंटे
वेलान्तर _____: -00:01:20 घंटे
साम्पातिक काल _____: 06:21:38 घंटे
सूर्योदय _____: 05:55:14 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:42:51 घंटे
दिनमान _____: 12:47:37 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: उत्तर
ऋतु _____: शरद
सूर्य के अंश _____: 10:45:01 सिंह
लग्न के अंश _____: 10:55:43 कन्या

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: कन्या - बुध
राशि-स्वामी _____: मेष - मंगल
नक्षत्र-चरण _____: अश्विनी - 3
नक्षत्र स्वामी _____: केतु
योग _____: वृद्धि
करण _____: तैतिल
गण _____: देव
योनि _____: अश्व
नाड़ी _____: आद्य
वर्ण _____: क्षत्रिय
वश्य _____: चतुष्पाद
वर्ग _____: सिंह
युँजा _____: पूर्व
हंसक _____: अग्नि
जन्म नामाक्षर _____: चो-चोलुक्य
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: लौह - स्वर्ण
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: कन्या

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1924	भाद्रपद	6
पंजाबी	संवत : 2059	भाद्रपद	13
बंगाली	सन् : 1409	भाद्रपद	11
तमिल	संवत : 2059	आवनी	12
केरल	कोल्लम : 1178	चिंगम	12
नेपाली	संवत : 2059	भाद्रपद	12
चैत्रादि	संवत : 2059	भाद्रपद	कृष्ण 5
कार्तिकादि	संवत : 2059	श्रावण	कृष्ण 5

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 5
तिथि समाप्ति काल _____ : 14:58:36
जन्म तिथि _____ : 5
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : अश्विनी
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 19:39:23 घंटे
जन्म योग _____ : अश्विनी
सूर्योदय कालीन योग _____ : वृद्धि
योग समाप्ति काल _____ : 23:37:36 घंटे
जन्म योग _____ : वृद्धि
सूर्योदय कालीन करण _____ : तैतिल
करण समाप्ति काल _____ : 14:58:36 घंटे
जन्म करण _____ : तैतिल
भयात _____ : 39:03:29
भभोग _____ : 67:34:26
भोग्य दशा काल _____ : केतु 2 वर्ष 11 मा 14 दि

घात चक्र


मास _____ : कार्तिक
तिथि _____ : 1-6-11
दिन _____ : रविवार
नक्षत्र _____ : मघा
योग _____ : विष्कुम्भ
करण _____ : बव
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मृग
लग्न _____ : मेष
सूर्य _____ : कर्क
चन्द्र _____ : मेष
मंगल _____ : सिंह
बुध _____ : वृष
गुरु _____ : कन्या
शुक्र _____ : तुला
शनि _____ : मिथुन
राहु _____ : वृश्चिक

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

	चं	रा	श
			गु
			मं सू
	के		शु ल बु

लग्न कुण्डली

रा	चं	
श		
गु		
सू मं	ल बु	के

विंशोत्तरी
केतु 2वर्ष 11मा 14दि
केतु

28/08/2002

13/08/2118

केतु	12/08/2005
शुक्र	12/08/2025
सूर्य	12/08/2031
चन्द्र	12/08/2041
मंगल	12/08/2048
राहु	12/08/2066
गुरु	12/08/2082
शनि	13/08/2101
बुध	13/08/2118

योगिनी

भ्रामरी 1वर्ष 8मा 8दि
संकटा

07/05/2022

07/05/2030

संकटा	15/02/2024
मंगला	06/05/2024
पिंगला	15/10/2024
धान्या	16/06/2025
भ्रामरी	07/05/2026
भद्रिका	16/06/2027
उल्का	15/10/2028
सिद्धा	07/05/2030


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			कन्या	10:55:43	321:40:42	हस्त	1	13	बुध	चंद्र	चंद्र	---
सूर्य			सिंह	10:45:01	00:57:56	मघा	4	10	सूर्य	केतु	शनि	मूलत्रिकोण
चंद्र			मेष	07:42:02	11:50:20	अश्विनी	3	1	मंगल	केतु	गुरु	सम राशि
मंगल	अ		सिंह	05:09:33	00:38:11	मघा	2	10	सूर्य	केतु	मंगल	मित्र राशि
बुध			कन्या	07:31:41	01:07:42	उ०फाल्गुनी	4	12	बुध	सूर्य	केतु	उच्च राशि
गुरु			कर्क	11:48:26	00:12:28	पुष्य	3	8	चंद्र	शनि	चंद्र	उच्च राशि
शुक्र			कन्या	26:35:12	00:55:02	चित्रा	1	14	बुध	मंगल	गुरु	नीच राशि
शनि			मिथु	03:27:18	00:04:29	मृगशिरा	4	5	बुध	मंगल	शुक्र	मित्र राशि
राहु	व		वृष	20:02:29	00:05:03	रोहिणी	4	4	शुक्र	चंद्र	केतु	मित्र राशि
केतु	व		वृश्चि	20:02:29	00:05:03	ज्येष्ठा	2	18	मंगल	बुध	शुक्र	मित्र राशि
हर्ष	व		कुंभ	02:38:41	00:02:22	धनिष्ठा	3	23	शनि	मंगल	केतु	---
नेप	व		मक	15:00:51	00:01:26	श्रवण	2	22	शनि	चंद्र	गुरु	---
प्लूटो			वृश्चि	21:00:42	00:00:03	ज्येष्ठा	2	18	मंगल	बुध	शुक्र	---
दशम भाव			मिथु	11:04:16	--	आर्द्रा	--	6	बुध	राहु	शनि	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:53:23


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	सिंह 25:57:08	कन्या 10:55:43
2	कन्या 25:57:08	तुला 10:58:34
3	तुला 25:59:59	वृश्चिक 11:01:25
4	वृश्चिक 26:02:51	धनु 11:04:16
5	धनु 26:02:51	मकर 11:01:25
6	मकर 25:59:59	कुम्भ 10:58:34
7	कुम्भ 25:57:08	मीन 10:55:43
8	मीन 25:57:08	मेष 10:58:34
9	मेष 25:59:59	वृष 11:01:25
10	वृष 26:02:51	मिथुन 11:04:16
11	मिथुन 26:02:51	कर्क 11:01:25
12	कर्क 25:59:59	सिंह 10:58:34


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	कन्या	10:55:43
2	तुला	09:21:01
3	वृश्चिक	09:46:00
4	धनु	11:04:16
5	मकर	12:27:39
6	कुम्भ	12:53:38
7	मीन	10:55:43
8	मेष	09:21:01
9	वृष	09:46:00
10	मिथुन	11:04:16
11	कर्क	12:27:39
12	सिंह	12:53:38


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
मघा	पूर्वाफाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा
मूल	पूर्वाषाढ़ा	उत्तराषाढ़ा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पूर्वाभाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती

चलित कुंडली



भाव कुंडली



विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : केतु 2 वर्ष 11 मास 14 दिन

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
28/08/2002	12/08/2005	12/08/2025	12/08/2031	12/08/2041
12/08/2005	12/08/2025	12/08/2031	12/08/2041	12/08/2048
00/00/0000	शुक्र 11/12/2008	सूर्य 30/11/2025	चंद्र 12/06/2032	मंगल 08/01/2042
00/00/0000	सूर्य 12/12/2009	चंद्र 31/05/2026	मंगल 11/01/2033	राहु 27/01/2043
00/00/0000	चंद्र 12/08/2011	मंगल 06/10/2026	राहु 13/07/2034	गुरु 02/01/2044
00/00/0000	मंगल 12/10/2012	राहु 31/08/2027	गुरु 12/11/2035	शनि 10/02/2045
00/00/0000	राहु 12/10/2015	गुरु 18/06/2028	शनि 12/06/2037	बुध 08/02/2046
28/08/2002	गुरु 12/06/2018	शनि 31/05/2029	बुध 12/11/2038	केतु 07/07/2046
गुरु 07/07/2003	शनि 12/08/2021	बुध 06/04/2030	केतु 13/06/2039	शुक्र 06/09/2047
शनि 15/08/2004	बुध 12/06/2024	केतु 12/08/2030	शुक्र 10/02/2041	सूर्य 12/01/2048
बुध 12/08/2005	केतु 12/08/2025	शुक्र 12/08/2031	सूर्य 12/08/2041	चंद्र 12/08/2048

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
12/08/2048	12/08/2066	12/08/2082	13/08/2101	13/08/2118
12/08/2066	12/08/2082	13/08/2101	13/08/2118	00/00/0000
राहु 25/04/2051	गुरु 29/09/2068	शनि 15/08/2085	बुध 10/01/2104	केतु 09/01/2119
गुरु 17/09/2053	शनि 13/04/2071	बुध 24/04/2088	केतु 06/01/2105	शुक्र 10/03/2120
शनि 24/07/2056	बुध 19/07/2073	केतु 03/06/2089	शुक्र 07/11/2107	सूर्य 16/07/2120
बुध 11/02/2059	केतु 24/06/2074	शुक्र 03/08/2092	सूर्य 12/09/2108	चंद्र 14/02/2121
केतु 29/02/2060	शुक्र 22/02/2077	सूर्य 16/07/2093	चंद्र 12/02/2110	मंगल 14/07/2121
शुक्र 01/03/2063	सूर्य 12/12/2077	चंद्र 14/02/2095	मंगल 09/02/2111	राहु 01/08/2122
सूर्य 24/01/2064	चंद्र 13/04/2079	मंगल 25/03/2096	राहु 28/08/2113	गुरु 29/08/2122
चंद्र 25/07/2065	मंगल 19/03/2080	राहु 30/01/2099	गुरु 04/12/2115	00/00/0000
मंगल 12/08/2066	राहु 12/08/2082	गुरु 13/08/2101	शनि 13/08/2118	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 2 वर्ष 11 मा 13 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

सूर्य - चंद्र 30/11/2025 31/05/2026	सूर्य - मंगल 31/05/2026 06/10/2026	सूर्य - राहु 06/10/2026 31/08/2027	सूर्य - गुरु 31/08/2027 18/06/2028	सूर्य - शनि 18/06/2028 31/05/2029
चंद्र 15/12/2025 मंगल 25/12/2025 राहु 22/01/2026 गुरु 15/02/2026 शनि 16/03/2026 बुध 11/04/2026 केतु 22/04/2026 शुक्र 22/05/2026 सूर्य 31/05/2026	मंगल 08/06/2026 राहु 27/06/2026 गुरु 14/07/2026 शनि 03/08/2026 बुध 21/08/2026 केतु 29/08/2026 शुक्र 19/09/2026 सूर्य 25/09/2026 चंद्र 06/10/2026	राहु 24/11/2026 गुरु 07/01/2027 शनि 28/02/2027 बुध 16/04/2027 केतु 05/05/2027 शुक्र 29/06/2027 सूर्य 15/07/2027 चंद्र 12/08/2027 मंगल 31/08/2027	गुरु 09/10/2027 शनि 24/11/2027 बुध 04/01/2028 केतु 21/01/2028 शुक्र 10/03/2028 सूर्य 25/03/2028 चंद्र 18/04/2028 मंगल 05/05/2028 राहु 18/06/2028	शनि 12/08/2028 बुध 30/09/2028 केतु 20/10/2028 शुक्र 17/12/2028 सूर्य 03/01/2029 चंद्र 01/02/2029 मंगल 22/02/2029 राहु 15/04/2029 गुरु 31/05/2029
सूर्य - बुध 31/05/2029 06/04/2030	सूर्य - केतु 06/04/2030 12/08/2030	सूर्य - शुक्र 12/08/2030 12/08/2031	चंद्र - चंद्र 12/08/2031 12/06/2032	चंद्र - मंगल 12/06/2032 11/01/2033
बुध 14/07/2029 केतु 01/08/2029 शुक्र 22/09/2029 सूर्य 07/10/2029 चंद्र 02/11/2029 मंगल 20/11/2029 राहु 06/01/2030 गुरु 16/02/2030 शनि 06/04/2030	केतु 14/04/2030 शुक्र 05/05/2030 सूर्य 12/05/2030 चंद्र 22/05/2030 मंगल 30/05/2030 राहु 18/06/2030 गुरु 05/07/2030 शनि 25/07/2030 बुध 12/08/2030	शुक्र 12/10/2030 सूर्य 30/10/2030 चंद्र 30/11/2030 मंगल 21/12/2030 राहु 14/02/2031 गुरु 04/04/2031 शनि 31/05/2031 बुध 22/07/2031 केतु 12/08/2031	चंद्र 07/09/2031 मंगल 25/09/2031 राहु 09/11/2031 गुरु 20/12/2031 शनि 06/02/2032 बुध 20/03/2032 केतु 07/04/2032 शुक्र 28/05/2032 सूर्य 12/06/2032	मंगल 24/06/2032 राहु 26/07/2032 गुरु 24/08/2032 शनि 26/09/2032 बुध 27/10/2032 केतु 08/11/2032 शुक्र 13/12/2032 सूर्य 24/12/2032 चंद्र 11/01/2033
चंद्र - राहु 11/01/2033 13/07/2034	चंद्र - गुरु 13/07/2034 12/11/2035	चंद्र - शनि 12/11/2035 12/06/2037	चंद्र - बुध 12/06/2037 12/11/2038	चंद्र - केतु 12/11/2038 13/06/2039
राहु 03/04/2033 गुरु 15/06/2033 शनि 10/09/2033 बुध 26/11/2033 केतु 28/12/2033 शुक्र 30/03/2034 सूर्य 26/04/2034 चंद्र 11/06/2034 मंगल 13/07/2034	गुरु 16/09/2034 शनि 02/12/2034 बुध 09/02/2035 केतु 09/03/2035 शुक्र 29/05/2035 सूर्य 23/06/2035 चंद्र 02/08/2035 मंगल 31/08/2035 राहु 12/11/2035	शनि 11/02/2036 बुध 03/05/2036 केतु 06/06/2036 शुक्र 10/09/2036 सूर्य 09/10/2036 चंद्र 26/11/2036 मंगल 30/12/2036 राहु 27/03/2037 गुरु 12/06/2037	बुध 24/08/2037 केतु 24/09/2037 शुक्र 19/12/2037 सूर्य 14/01/2038 चंद्र 26/02/2038 मंगल 28/03/2038 राहु 14/06/2038 गुरु 22/08/2038 शनि 12/11/2038	केतु 24/11/2038 शुक्र 29/12/2038 सूर्य 09/01/2039 चंद्र 27/01/2039 मंगल 08/02/2039 राहु 12/03/2039 गुरु 10/04/2039 शनि 13/05/2039 बुध 13/06/2039

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	1
भाग्यांक	4
मित्र अंक	1, 4, 8, 9
शत्रु अंक	3, 5, 6
शुभ वर्ष	19,28,37,46,55
शुभ दिन	बुध, शुक्र
शुभ ग्रह	बुध, शुक्र
मित्र राशि	कर्क, धनु
मित्र लग्न	धनु, वृष, कर्क
अनुकूल देवता	हनुमान
शुभ रत्न	पन्ना
शुभ उपरत्न	संगपन्ना, मरगज
भाग्य रत्न	हीरा
शुभ धातु	कांसा
शुभ रंग	हरित
शुभ दिशा	उत्तर
शुभ समय	सूर्योदय के बाद
दान पदार्थ	हाथी दाँत, कपूर, फल
दान अन्न	मूँग
दान द्रव्य	घी

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
पन्ना	बुध	100%	स्वास्थ्य, व्यावसायिक उन्नति
हीरा	शुक्र	94%	स्वास्थ्य, भाग्योदय, धन
गोमेद	राहु	84%	भाग्योदय, स्वास्थ्य
नीलम	शनि	75%	व्यावसायिक उन्नति, सन्तति सुख, शत्रु व रोग मुक्ति
पुखराज	गुरु	66%	धनार्जन, सुख, दम्पति
लहसुनिया	केतु	28%	पराक्रम हानि, व्यय
मोती	चंद्र	12%	दुर्घटना, हानि
माणिक्य	सूर्य	0%	व्यय
मूंगा	मंगल	0%	व्यय, दुर्घटना, पराक्रम हानि



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	12/08/2005	0%	0%	0%	100%	66%	100%	62%	72%	52%
शुक्र	12/08/2025	0%	0%	0%	100%	66%	100%	81%	91%	41%
सूर्य	12/08/2031	13%	25%	0%	100%	72%	81%	62%	72%	3%
चंद्र	12/08/2041	1%	38%	0%	100%	66%	94%	75%	72%	3%
मंगल	12/08/2048	1%	25%	0%	100%	72%	94%	75%	72%	41%
राहु	12/08/2066	0%	0%	0%	100%	66%	100%	81%	97%	3%
गुरु	12/08/2082	1%	25%	0%	100%	78%	81%	75%	84%	28%
शनि	13/08/2101	0%	0%	0%	100%	66%	100%	88%	91%	3%
बुध	13/08/2118	1%	0%	0%	100%	66%	100%	75%	84%	28%

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	06/09/2004-13/01/2005 26/05/2005-01/11/2006 10/01/2007-16/07/2007
अष्टम स्थानस्थ ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017 -----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	29/03/2025-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028 -----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	03/06/2027-20/10/2027 23/02/2028-08/08/2029 05/10/2029-17/04/2030
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	08/08/2029-05/10/2029 17/04/2030-31/05/2032 -----

द्वितीय चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	13/07/2034-27/08/2036 -----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046 -----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057 -----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	07/04/2057-27/05/2059 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	27/05/2059-11/07/2061 13/02/2062-07/03/2062 -----

तृतीय चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066
अष्टम स्थानस्थ ढैया	05/02/2073-31/03/2073 23/10/2073-16/01/2076 11/07/2076-11/10/2076
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	20/03/2084-21/05/2086 21/05/2086-08/02/2087 -----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	21/05/2086-21/05/2086 08/02/2087-18/07/2088 31/10/2088-05/04/2089
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	18/07/2088-31/10/2088 05/04/2089-19/09/2090 25/10/2090-21/05/2091

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	सम	अल्प बचत
अष्टम स्थानस्थ ढैया	सम	पराक्रम हानि
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	शुभ	दम्पति
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	अशुभ	दुर्घटना
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	शुभ	भाग्योदय

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।


आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति लग्न से द्वादश भाव में है। अतः आप एक मांगलिक पुरुष है। क्योंकि आपकी कुंडली में यह दोष किसी भी प्रकार से भंग नहीं हो रहा है। अतः इसके प्रभाव से आपकी प्रवृत्ति व्ययशील रहेगी तथा शुभाशुभ कार्यों पर आपका व्यय होता रहेगा जिससे यदा कदा अल्प मात्रा में आर्थिक परेशानी हो सकती है लेकिन यह स्थिति अल्पकालिक रहेगी। सामान्यतया आप आर्थिक रूप से सम्पन्न ही रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। यदा कदा मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है साथ ही सांसारिक महत्व के शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान भी आएंगे परन्तु आप उनका सामना तथा समाधान करने में समर्थ रहेंगे। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी मध्यम रहेगा तथा स्वभाव में उग्रता भी रहेगी जिससे परस्पर संबंधों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सांसारिक सुखों का उपभोग करने में भी आपको किंचित व्यवधानों के साथ न्यूनाधिक सफलता प्राप्त होती रहेगी।

मंगल के इस प्रभाव से आपके विवाह में भी किंचित विलम्ब हो सकता है लेकिन इस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही विवाह पूर्व की किसी वार्ता में गतिरोध भी हो सकता है लेकिन विवाह के बाद आपके परस्पर संबंध समान रूप से अनुकूल रहेंगे तथा दाम्पत्य जीवन का उपभोग करने में आप समर्थ होंगे।

जन्म कुंडली में मंगल की द्वादश स्थिति के प्रभाव से आपकी प्रवृत्ति व्ययशील रहेगी परन्तु धनार्जन भी आवश्यक मात्रा में होता रहेगा जिससे इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा साथ ही सांसारिक कार्यों में उत्पन्न व्यवधानों का सामना तथा समाधान करने में भी आप समर्थ रहेंगे। तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से भाई बहनों का सुख एवं सहयोग मध्यम रहेगा परन्तु पराक्रम में वृद्धि होगी तथा आत्मबल से आप युक्त रहेंगे जिससे कार्य क्षेत्र में आप

उन्नतिशील रहेंगे। षष्ठ भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से शत्रु पक्ष को पराजित करने में आप समर्थ रहेंगे। यदा कदा पित या गर्मी से आपको शारीरिक परेशानी की अल्प मात्रा में अनुभूति हो सकती है सप्तम भाव पर इसकी दृष्टि के प्रभाव से पत्नी का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा साथ ही स्वभाव में उग्रता भी रहेगी लेकिन आपसी सामंजस्य के द्वारा दाम्पत्य जीवन की मधुरता बनाए रखने में आप समर्थ रहेंगे।

इस प्रकार अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखी एवं आनन्दमय बनाने के लिए आपको किसी मांगलिक कन्या से विवाह करना चाहिए जिससे आपका मांगलिक दोष खत्म हो जाए। इसके लिए कन्या की कुंडली में मांगलिक स्थानों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि या राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। ऐसा होने पर आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी तथा धनऐश्वर्य से युक्त होकर आप प्रसन्नता पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे तथा एक दूसरे को पूर्ण सुख एवं सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाद्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाद्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में शंखचूड़ नामक कालसर्प योग केवल अनुदित रूप में विद्यमान है। अनुदित योग पूर्णरूप से कालसर्प योग की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका कुछ फल अवश्य मिलता है। फलस्वरूप जातक को भाग्योदय होने में थोड़ा व्यवधान उपस्थित होता है और नौकरी में आगे बढ़ने के प्रयास में आंशिक रूप से रुकावटें आती हैं। परन्तु कालान्तर में व्यवधान स्वतः हट जाता है और कभी नौकरी में अवनति का भय होता है। व्यापार में थोड़ी बहुत रुकावट आकर नुकसान को जातक प्राप्त करता है। मित्रों द्वारा कपट व्यवहार होने के कारण जातक को धन की क्षति उठानी पड़ती है। पिता के सुख में न्यूनता रहती है। मामा पक्ष से या बहनोई से छल कपट किये जाने पर जातक आंशिक कष्ट पाता है और शासन की तरफ से भी थोड़ा बहुत मुसीबत आती है। अधिकारियों से कभी-कभी मनमुटाव हो जाता है। जिस कारण जातक को न्यायालय से कभी जुर्माना या आंशिक रूप में सजा मिल सकती है।

इस योग के प्रभाव से जातक के शरीर में कभी-कभी रोग व्याधि ग्रसित कर लेती है। जिसमें थोड़ा बहुत धन खर्च हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति असामान्य हो जाती है। कालान्तर में पुनः वह सामान्य हो जाती है। जातक को चिन्ता परेशानी समय-समय पर लग जाती है और वैवाहिक जीवन सामान्य होते हुए भी कभी दुःखमय बन जाता है तथा प्रायः भोग से अतृप्त रहती है। घर में सुख शान्ति का थोड़ा बहुत अभाव रहता है। जातक कई प्रकार से धन्ये करता है पर स्थाई सफलता सदैव संदिग्ध रहती है। सुख प्राप्ति के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ता है और सामाजिक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा सामान्य रहती है।


यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. बहते पानी में नारियल के फल को तीन बार शुभ मुहूर्त में प्रवाहित करें।
3. बहते पानी में कोयला को शुभ मुहूर्त में तीन बार प्रवाहित करें।
4. हरिजन को मसूर की दाल तथा द्रव्य शुभ मुहूर्त में तीन बार दान करें।
5. हनुमान चलीसा का 108 बार पाठ करें।
6. शयन कक्ष में लाल रंग के पर्दे, चादर तथा तकियों का उपयोग करें।
7. कुल देवता की पूजा करें।
8. धूम्रवस्त्र, तिल, कम्बल एवं सप्तधान्य शुभ मुहूर्त में रात्रि को दान करें।
9. केतु की उपासना उसकी महादशा में अवश्य करें।
10. देवदारु, सरसों तथा लोहवान को उबाल कर एक बार स्नान करें।

11. सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएँ।
12. नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन्, लोहे की अंगूठी धारण करें।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- नवम् भाव का स्वामी नीचस्थ है और उस पर राहु का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में शुक्र के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में शुक्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ गरीब या जरूरतमंद स्त्रियों, कन्याओं को तथा पत्नी को दान दें। 11 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं को मंदिर में खीर खिलायें।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



ग्रह फल

सूर्य

बारहवें भाव में सूर्य हो तो जातक वाम नेत्र तथा मस्तक रोगी ,आलसी, उदासीन, परदेशवासी, मित्र-द्वेषी एवं कृश शरीर होता है।

सिंह राशि में रवि हो तो जातक सत्संगी पुरुषार्थी, योगाभ्यासी, वनविहारी, कोधी, गम्भीर, उत्साही, तेजस्वी एवं धैर्यशाली होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य द्वादश भाव में स्थित है अतः आपके पिता का शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक अस्वस्थता भी रहेगी। आपके प्रति उनके मन में स्नेह का भाव रहेगा। धन सम्पत्ति से वे प्रायः युक्त ही रहेंगे एवं जीवन में शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको नित्य अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। दानशीलता की प्रवृत्ति से वे युक्त रहेंगे एवं आपको भी पुण्य कार्यों को करने की नित्य प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे।

आप का भी उनके प्रति मन में पूर्ण आदर का भाव रहेगा एवं समयानुसार उनकी आज्ञा का आप अनुपालन करते रहेंगे। आपके आपसी संबंध अच्छे होंगे परन्तु बीच बीच में कभी सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे संबंधों में तनाव या कटुता आएगी लेकिन कुछ समय के उपरान्त स्वतः ही ठीक हो जाएगा। साथ ही आजीवन में हमेशा उनके सहयोग एवं सहायता के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे एवं उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होने देंगे तथा समयानुसार आर्थिक या अन्य प्रकार की वांछित सहयोग भी प्रदान करेंगे।

चन्द्र

आठवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक कामी, व्यापार से लाभवाला, विकास्त प्रमेहमरोगी, वाचाल, स्वाभिमानी, बन्धन से दुखी होने वाला एवं ईर्ष्यालु होता है।

मेष राशि में चन्द्रमा हो तो जातक स्थिर सम्पत्तिवान्, शूर, दृढ़ शरीरवाला, बन्धुहीन, कामी, उतावला, जलभीरु, यात्रा करने का शौकीन ,आत्माभिमानी एवं साहसी होता है।

आपके जन्मकाल में चन्द्रमा की स्थिति अष्टम भाव में है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। आपके प्रति उनके मन में सामान्य प्रेम विद्यमान रहेगा एवं जीवन में समस्त महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको सहयोग तथा प्रोत्साहन प्रदान करती रहेंगी। आपके स्वास्थ्य के प्रति वे चिन्तनशील रहेगी एवं सर्वदा आर्थिक तथा अन्य सहायता करती रहेंगी। इसके अतिरिक्त उनसे आप कभी कभी विशेष धनार्जन करने में भी सफल हो सकेंगे।

आप का भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रहेगा एवं उनकी सेवा तथा आज्ञा का पालन करने के लिए प्रायः तत्पर ही रहेंगे। आपके परस्पर संबंध अच्छे रहेंगे परन्तु यदा कदा आपसी मतभेदों के कारण इनमें कटुता भी आयेगी लेकिन कुछ समयोपरान्त स्वतः सब कुछ

सामान्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपके परस्पर संबंध भी सामान्य ही रहेंगे।

मंगल

बारहवें भाव में मंगल हो तो जातक नेत्ररोगी, स्त्रीनाशक, ऋणी, झगड़ालू, मूर्ख, व्ययशील एवं नीच प्रकृति का पापी होता है।

सिंह राशि में मंगल हो तो जातक शूरवीर, सदाचारी, कार्यनिपुण, स्नेहशील, परोपकारी, ज्योतिषी, गणितज्ञ, माता-पिता का आज्ञाकारी, गुरुजनों का आदर करने वाला, उदार एवं सफल होता है।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति द्वादश भाव में विद्यमान है अतः भाई बहिनों से आप सामान्य स्नेह तथा सम्मान प्राप्त करेंगे। उनका स्वास्थ्य भी मध्यम रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक रूप से अस्वस्थता भी उनमें विद्यमान रहेगी। धन सम्पत्ति से वे प्रायः युक्त रहेंगे तथा जीवन में आपको वांछित आर्थिक तथा अन्य रूप से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त सुख दुःख में भी आपको उनसे पूर्ण सहानुभूति तथा सहायता प्राप्त होगी।

आपके मन में भी उनके प्रति सम्मान एवं स्नेह की भावना रहेगी एवं यथाशक्ति जीवन में उनको अपनी ओर से आर्थिक या अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे परन्तु यदा कदा मतभेदों के कारण तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी परन्तु कुछ समय के बाद सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा।

बुध

लग्न (प्रथम) में बुध हो तो जातक आस्तिक, गणितज्ञ, दीर्घायु, उदार-विनोदी, वैद्य, विद्वान्, स्त्रीप्रिय, मितव्ययी एवं मधुरभाषी होता है।

कन्या राशि में बुध हो तो जातक वक्ता, कवि, साहित्यिक, लेखक, सम्पादक, ज्योतिषी, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ, अध्यापक, उदार, सुखी एवं अच्छा चरित्र वाला होता है।

गुरु

ग्यारहवें भाव में गुरु हो तो जातक व्यवसायी, धनिक, सन्तोषी, सुन्दरनिरोगी, लाभवान्, पराकमी, सद्ब्ययी, बहुस्त्रीयुक्त, विद्वान् राजपूज्य एवं अल्पसन्ततिवान् होता है।

कर्क राशि में गुरु हो तो जातक सदाचारी, विद्वान्, सत्यवक्ता महायशस्वी, साम्यवादी, सुधारक, योगी, लोकमान्य, सुखी, धनी, नेता, कुशाबुद्धि एवं वफादार होता है।

शुक्र

लग्न (प्रथम) में शुक्र हो तो जातक सुन्दरदेही, दीर्घायु, राजप्रिय, कामी, उच्चसरकारी पद पर आसीन, विलासी, भोगी, विद्वान्, प्रवासी, मधुरभाषी, प्रसिद्ध सुखी एवं ऐश्वर्यवान् होता है।

कन्या राशि में शुक्र हो तो जातक, सुखी, भोगी, अतिकामी, सभापण्डित, रोगी, वीर्यहीन, सट्टे द्वारा धननाशक एवं अवैध सम्बन्ध रखने वाला होता है।

शनि

दशम भाव में शनि हो तो जातक विद्वान्, ज्योतिषी, राजयोगी, न्यायी, नेता, धनवान्, राजमान्य, उदरविकारी, अधिकारी, चतुर, भाग्यवान् परिश्रमी, निरुद्पयोगी एवं महत्त्वाकांक्षी होता है।

मिथुन राशि में शनि हो तो जातक दुराचारी, कपटी, कामी, पाखण्डी, निर्धन, दुःखी एवं संकीर्ण मन वाला होता है।

राहु

नवम भाव में राहु हो तो जातक प्रवासी, वातरोगी, व्यर्थ परिश्रमी, दुष्टबुद्धि, भाग्योदय से रहित, तीर्थाटनशील एवं धर्मात्मा होता है।

वृष राशि में राहु हो तो जातक सुखी, चंचल, कुरूप, आवेशपूर्ण स्वभाव एवं धनी होता है।

केतु

तृतीय भाव में केतु हो तो जातक चंचल, वायुजनित रोगों से पीड़ित, भाई बहन विहीन, धनी, व्यर्थवादी एवं भूतप्रेतभक्त होता है।

वृश्चिक राशि में केतु हो तो जातक धूर्त, वाचाल, कुष्ठरोगी, क्रोधी निर्धन एवं व्यसनी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- सूर्य
(12/08/2025 - 12/08/2031)

सूर्य की महादशा 12/08/2025 को आरंभ और 12/08/2031 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 6 वर्ष है। आपकी जन्मकुण्डली में सूर्य द्वादश स्थान में अवस्थित है। सूर्य दर्प, आत्मा, सात्विक स्वभाव तथा का चेतनता का प्रतिनिधित्व करता है जबकि द्वादश भाव मोक्ष, व्यय, यात्रा तथा धार्मिक विचारों का सूचक है। अतः इस दशा-काल में आपकी धर्म के प्रति प्रवृत्ति होगी, आप यात्राओं पर जाएंगे और आपको शक्ति और प्रभुत्व की प्राप्ति होगी।

स्वास्थ्य :

आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। केवल आपकी आँखों को सावधानी की आवश्यकता है। आँख की पीड़ा और कष्ट से ग्रसित हो सकते हैं। अन्यथा आपका स्वास्थ्य और जीवन शक्ति उत्तम होंगे।

अर्थ :

आपका व्यय होगा, किन्तु फलदायी उद्देश्यों के लिये होगा। आपको विदेशी स्रोतों से भी धन की प्राप्ति होगी। षष्ठम भाव पर सूर्य की दृष्टि के कारण शत्रुओं, प्रतिस्पर्धियों और नौकरी से लाभ हो सकता है।

व्यवसाय :


आप दूसरों की सेवा कर उनसे मान्यता प्राप्त करेंगे। कुछ उतार-चढ़ाव की सम्भावना है, किन्तु कुल मिलाकर आप अपनी जीवन वृत्ति में अच्छा करेगे। आपको सरकार तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्रतिष्ठा मिलेगी। विदेश प्रवास अथवा विदेश में जीवन-वृत्ति भी हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों और साझेदारों से लाभ मिलेगा। आपके सम्बन्ध उनके साथ मित्रवत् होंगे। आप इस दशा में अनुबन्ध-पत्र, करारनामा आदि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिनका संबंध विदेश से हो सकता है। आप सरकारी, पशासनिक आदि कार्यों में सफल होंगे। तकनीकी तथा विज्ञान-सम्बन्धी सेवाएं लाभदायक होंगी। आप रत्नों, सोने, संगमरमर आदि का व्यापार कर सकते हैं। आप आयात निर्यात का व्यापार भी कर सकते हैं जिसमें कुछ यात्राएं होंगी।

परिवार :

कुछ दिनों के लिये आप अपने बच्चों से दूर जा सकते हैं। आपको उनसे सुख आनन्द की प्राप्ति होगी। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य-क्षेत्र में स्थिति उनके अनुकूल रहेगी, धन की प्राप्ति होगी तथा शत्रुओं पर विजय मिलेगी। आपकी माता के लिये समय भाग्यशाली रहेगा और आपको उनसे धन तथा सुख की प्राप्ति होगी। आपके पिता की एक अचल सम्पत्ति होगी तथा सुख और धन की प्राप्ति होगी। आपके छोटे भाई-बहनों का जीवन सफल रहेगा और बड़े भाई-बहनों को सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे।

शिक्षा :

योग में आपकी रुचि होगी और आप धार्मिक प्रवचन देंगे या उनका आयोजन करेंगे।



**अंतर्दशा :- सूर्य - चन्द्र
(30/11/2025 - 31/05/2026)**

आपकी सूर्य की महादशा 12/08/2025 को प्रारंभ हुई थी। इसमें दूसरी अंतर्दशा चंद्रमा की होगी जिसकी अवधि 6 मास है और यह 31/05/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र मष्तिष्क, घर, माता और सौंदर्य का कारक है।

इस अवधि में आपको अचानक बिना परिश्रम के धन प्राप्त हो सकता है। बीमे, ग्रेच्युटी, सेवानिवृति लाभ आदि से धन मिल सकता है। आप परिवारजनों के प्रिय रहेंगे और उत्तम भोजन, सुख-सुविधाओं का आनंद उठाएंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। अध्यात्म में रुचि ले सकते हैं। वैराग्य की भावना उदित हो सकती है। अप्रत्याशित प्रोन्नति हो सकती है।

बड़े भाई-बहनों के व्यवसाय/कार्य में उन्नति हो सकती है। छोटे भाई-बहनों से मनमुनाव से बचें। पिता का समय कठिन हो सकता है। माता भाग्यशाली रहेंगी।

जीवनसाथी या व्यापार में भागीदार के धन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साझेदारी का कार्य सफल रहेगा। बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का आप ठीक से ध्यान रखेंगे।

मामा पक्ष के लोगों को अधिक परिश्रम करना होगा। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मामूली शिकायतों जैसे नेत्ररोग, सर्दी, ज्वर आदि से परेशानी संभव है। इन सब से बचने के लिए सोमवार का व्रत करें और श्वेत वस्त्रों का दान करें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - मंगल
(31/05/2026 - 06/10/2026)**

आपकी सूर्य की महादशा 12/08/2025 को प्रारंभ हो रही है। इसमें तृतीय अंतर्दशा मंगल की है जिसकी अवधि 4 मास 6 दिन है। यह अंतर्दशा 06/10/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल साहस, ऊर्जा और भाइयों का कारक है।

इस अवधि में उत्साह और पहल करने में उत्तम होने के कारण आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। आपके शत्रु और विरोधी पनप नहीं सकेंगे और आप से परास्त होंगे। जीवनसाथी और व्यापार के साझेदार की देखभाल जरूरी है क्योंकि उनको कोई बीमारी हो सकती है। आपकी कोई दूरस्थ स्थान की या विदेश यात्रा हो सकती है। भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

आपकी संतान को अचल संपदा प्राप्त हो सकती है। अगर वे सेवारत हैं तो जायदाद की खरीद/बेच कर सकते हैं। माता की यात्रा हो सकती है। पिता को जायदाद, सत्ता और अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। छोटे भाई-बहन अपने कार्यस्थल पर सक्रिय रहेंगे। सेवारत जातकों को प्रोन्नति और धनलाभ प्राप्त होंगे। परामर्शदाताओं के जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है। व्यापारीगण सौभाग्यशाली रहेंगे और धनसंचय करेंगे। नेत्ररोग, पैरों की चोट, ज्वर आदि से बचाव करें। अशुभत्व से रक्षा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें।

अंतर्दशा :- सूर्य - राहु
(06/10/2026 - 31/08/2027)

आपके लिए सूर्य की महादशा 12/08/2025 को प्रारंभ हुई थी। इसमें चतुर्थ अंतर्दशा राहु की होगी। यह 06/10/2026 को प्रारंभ होकर 31/08/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक सुख, दादा और तीर्थयात्रा का कारक है।

इस अवधि में आप नाम, प्रसिद्धि, धन और समृद्धि के भागी बनेंगे। आप तीव्रबुद्धि वाले हैं। आपको शैक्षणिक, कानूनी और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी। विदेशियों से संपर्क हो सकता है। आप स्वभाव से स्वतंत्र और अपरंपरावादी हैं। रिश्तेदारों की मदद करेंगे। अंतर्चतना में वृद्धि होगी। लंबी यात्राएं हो सकती हैं। भाई-बहनों से संबंध मधुर रहेंगे आपको दूरदर्शन, प्रकाशन, लेखन आदि में सफलता मिल सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मन लगेगा।

जीवनसाथी परिश्रम करेंगे। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। आपके पिता भाग्यशाली रहेंगे। माता को सब सुख-सुविधाएं रहेंगी। भाई-बहनों का भाग्य चमकेगा, उनका विवाह हो सकता है, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

आपकी संतान की शिक्षा उत्तम रहेगी, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे, निवेश से लाभ होगा और जीवन आनंदमय रहेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो सरकार या उच्चाधिकारियों से लाभ होगा। परामर्शदाताओं की यात्राएं हो सकती हैं। व्यापारियों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।

कूल्हे आदि की अस्थियों में तकलीफ से बचें। कष्ट से बचने के लिए राहु मंत्र का जाप करें।

ॐ रां राहवे नमः

अंतर्दशा :- सूर्य - गुरु
(31/08/2027 - 18/06/2028)

आपके लिए सूर्य की महादशा 12/08/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा 9 मास 18 दिन की रहेगी। यह 31/08/2027 को प्रारंभ होकर 18/06/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति धन, संतान और धर्म का कारक है।

इस अवधि में आप धन, प्रसिद्धि और सम्मान के भागी होंगे। आपको सट्टेबाजी और पहले किये निवेश से लाभ होगा। संतान से सुख मिलेगा या शिशु का जन्म हो सकता है। सर्जनात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। आपका मन पुराणों के अध्ययन और धर्म में लगेगा। भाइयों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। लाभकारी यात्रा के योग हैं। जीवन के प्रति दृष्टिकोण विस्तृत होगा।

जीवनसाथी को सट्टे, निवेश से लाभ होगा, संतान से सुख मिलेगा। आपके पिता को लेखन, पड़ोसियों और मामूली जान-पहचान वालों से लाभ होगा। माता के धन में वृद्धि

होगी, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। आपके भाई-बहनों के धन में वृद्धि होगी, लंबी यात्राएं होंगी और परिवार के सदस्यों से संबंध मधुर होंगे। आपके बच्चों की शिक्षा उत्तम होगी। उनमें से एक का विवाह हो सकता है या कैरियर अच्छा बनेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो बेहतरी हेतु कुछ स्पर्धा होगी। परामर्शदाता धन कमाएंगे। व्यापारी सफल और व्यस्त रहेंगे।

कान और पेट के रोग हो सकते हैं। शुभत्व में वृद्धि के लिए पीली वस्तुओं का दान करें।

अंतर्दशा :- सूर्य - शनि (18/06/2028 - 31/05/2029)

आपकी सूर्य की महादशा जारी है। इसमें छठी अंतर्दशा शनि की है जिसकी अवधि 11 मास 12 दिन है। आपके लिए यह 18/06/2028 को प्रारंभ होगी और 31/05/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, संन्यास और दार्शनिक स्वभाव का कारक है।

इस अवधि में आपको कृषि, खनन आदि से लाभ होगा। उच्चाधिकारियों, मंत्रियों आदि से अच्छे संबंध बना कर रखें, अन्यथा पतन हो सकता है। आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है या वर्तमान जायदाद में सुधार करा सकते हैं। माता के साथ संबंध मधुर होंगे ; उनसे लाभ होगा। स्नायु रोग और अवसाद से बचें।

आपके जीवन साथी के भाग्य में धन संचय, वाहन सुख, प्रसिद्धि, उच्च पद का योग है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता का स्वास्थ्य और धनार्जन उत्तम रहेंगे। भाई-बहनों के जीवन में परिवर्तन, यात्रा का संकेत है। आपकी संतान को स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा या खेल-कूद में भाग ले सकते हैं। उनको मामूली स्वास्थ्य समस्या हो सकती है।

सेवारत या नौकरी के इच्छुक जातकों को रोजगार मिल सकता है।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। घुटनों, पैरों की मामूली तकलीफ हो सकती है। अरिष्ट से बचने के लिए काली वस्तुओं का दान करने के बाद शनि की आराधना करें।

अंतर्दशा :- सूर्य - बुध (31/05/2029 - 06/04/2030)

आपकी सूर्य की महादशा 12/08/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा बुध की है जिसकी अवधि 10 मास 6 दिन रहेगी। यह 31/05/2029 को प्रारंभ होकर 06/04/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध बुद्धिमत्ता, शिक्षा, वाणी का कारक है।

इस अवधि में आप उच्चपद और अधिकार प्राप्त करेंगे। जीवनसाथी से सुख और आराम की प्राप्ति होगी। जमीन, जायदाद और पिता से लाभ मिलेगा। मामा पक्ष के लोग धनधान्य से परिपूर्ण होंगे। माता से आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यापार या सट्टेबाजी से अच्छी आय संभव है। जीवनसाथी या साझेदार का साथ विचार विनिमय सकारात्मक रहेगा। लेखकों

और विचारकों के लिए यह समय शुभ रहेगा। जीवन साथी को व्यवसाय, लेखन, पत्रलेखन से अच्छी आय हो सकती है। साझेदार को लाभ होगा।

आपके पिता को सट्टेबाजी या निवेश से धन मिलेगा। उन्हें संतान से सुख मिलेगा और उच्चपद मिल सकता है। माता को कार्यों में सफलता, धन का लाभ और शत्रुओं पर विजय संभावित हैं।

छोटे भाई-बहनों को धन मिलेगा, बड़ों की लघु यात्राएं हो सकती हैं। संतान को उच्चशिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे और वर्तमान शिक्षा में सफलता मिलेगी।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवनस्तर पहले जैसा रहेगा। परामर्शदाताओं की आय बढ़ेगी।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्नायविक थकान से सावधान रहें। शुभत्व में वृद्धि के लिए बुध के मंत्र का जाप करें।

अंतर्दशा :- सूर्य - केतु (06/04/2030 - 12/08/2030)

आपके लिए सूर्य की महादशा 12/08/2025 को प्रारंभ हुई थी। इसमें आठवीं अंतर्दशा केतु की है जिसकी अवधि 4 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 06/04/2030 को आरंभ होकर 12/08/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु संन्यास, मंत्रज्ञान ओर कष्टों का कारक है।

इस अवधि में आप साहसी और भाग्यशाली होंगे। विवादों में फंसने से मन उत्तेजित हो सकता है मगर अंत में विरोधी परास्त होंगे। धन और सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। संन्यास और अध्यात्म की ओर झुकाव हो सकता है। विदेशियों से प्रेम और धन की प्राप्ति हो सकती है। उच्चाधिकारियों से विवाद हो सकता है। कोई आदमी धोखा दे सकता है।

आपके जीवनसाथी को मिश्रित परिणाम मिलेंगे; वे दान धर्म में भाग लेंगे और सब सुखों से युक्त होंगे। पिता की आय बढ़ेगी मगर खर्च भी अधिक होंगे। माता के निवास में परिवर्तन हो सकता है। उनकी यात्राएं होंगी और अध्यात्म में रुचि रहेगी। भाई-बहनों का भाग्य मिश्रित रहेगा।

आपकी संतान भाग्यशाली रहेगी। उन्हें सफलता, उच्चाधिकारियों से सहयोग, भूमि प्राप्ति का योग है। अगर वे नौकरी कर रहे हैं तो यात्राएं होंगी। विद्यार्थियों को तकनीकी विषयों में सफलता मिलेगी।

हाथ, पांव; कान, गले के रोगों से बचें। शुभत्व में वृद्धि के लिए गणेशजी की आराधना करें; उड़द की दाल, कंबल सतनजा, तेल दान करें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - शुक्र
(12/08/2030 - 12/08/2031)**

सूर्य महादशा में शुक्र अंतर्दशा होगी।

शुक्र की अंतर्दशा में दांपत्य सुख उत्तम रहेगा, सब प्रकार से आनंद रहेगा और समाज सेवा में मन लगेगा। आपके मित्रों की संख्या प्रचुर होगी। उनके साथ हंसी-खुशी से वक्त गुजरेगा। सुंदर वस्त्र, सुख के साधन, इत्र आदि प्राप्त होंगे। अंतर्दशा के प्रारंभ में सब कार्यों में सफलता मिलेगी और धनार्जन करेंगे। इस अवधि में कोई वाहन क्रय कर सकते हैं।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा मगर किसी भी अति से बचें। शुभत्व में वृद्धि के लिए शुक्र के मंत्र का जाप करें।

